

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 1969/चैत्र 11, 1891

No. 59] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 1969/CHAITRA 11, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 1st April 1969

G.S.R. 917/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), read with clause 6 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) No G.S.R. 914/Ess. Com./Sugar, dated the 10th June, 1966, namely:—

In the said Order, after the existing proviso the following proviso shall be added, namely:—

“Provided further that nothing in this Order shall apply to the transport of khandasari sugar from the State of Uttar Pradesh to any place outside the State”.

[No. 9-4/69-SCI.]

K. L. PARIKHA, Jt. Secy.

(265)

